



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, बुधवार, 13 दिसम्बर, 2023

अग्रहायण 22, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

उच्च शिक्षा अनुभाग-5

संख्या 3121/70-5-2023-8-2023

लखनऊ, 13 दिसम्बर, 2023

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 2023)की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, इस अधिसूचना के शासकीय गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, "उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग", जो एक निगमित निकाय होगा तथा जिसका मुख्यालय प्रयागराज में होगा, की स्थापना करती हैं।

राज्यपाल अग्रतर ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती हैं, यदि वह-

क-भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य हो या रहा हो और राज्य सरकार में प्रमुख सचिव का पद या उसके समकक्ष पद धारण किया हो; या

ख-विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का कुलपति हो या रहा हो; या

ग-विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का कम से कम दस वर्ष से आचार्य हो या रहा हो और जिसके पास कम से कम तीन वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो।

सदस्यों में से-

क-एक ऐसा व्यक्ति होगा जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का कोई सदस्य हो या रहा हो और जिसने राज्य सरकार के अधीन सचिव का पद या कोई अन्य समकक्ष पद धारित किया हो;

ख-एक ऐसा व्यक्ति होगा जो संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा से अनिम्न रैंक का हो या रहा हो, जिसकी सेवाएं उत्कृष्ट कोटि की रही हों;

ग-एक ऐसा व्यक्ति होगा जो अपर निदेशक व्यावसायिक शिक्षा से अनिम्न रैंक का हो या रहा हो, जिसकी सेवाएं उत्कृष्ट कोटि की रही हों;

घ-एक ऐसा व्यक्ति होगा, जो संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा से अनिम्न रैंक का हो या रहा हो, जिसकी सेवाएं उत्कृष्ट कोटि की रही हों;

ङ-एक ऐसा व्यक्ति होगा, जो संयुक्त निदेशक, बेसिक शिक्षा से अनिम्न रैंक का हो या रहा हो, जिसकी सेवाएं उत्कृष्ट कोटि की रही हों;

च—एक ऐसा व्यक्ति होगा, जो न्यायिक सेवा (जिला न्यायाधीश स्तर) से संबंधित रहा हो, जिसकी सेवाएं उत्कृष्ट कोटि की रही हों;

छ—छ: सदस्य ऐसे शिक्षाविद् होंगे, जिनकी सेवाएं उत्कृष्ट कोटि की रही हों, और जिन्होंने राज्य सरकार की राय में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो।

आज्ञा से,
एम०पी० अग्रवाल,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 3121/LXX-5-2023-8-2023, dated December 13, 2023:

No. 3121/LXX-5-2023-8-2023

Dated Lucknow December 13, 2023

IN exercise of powers under sub-section (1) of section 3 of the Uttar Pradesh Education Service Selection Commission Act, 2023 (U.P. Act no. 15 of 2023), the Governor with effect from the date of publication of this notification in the Official *Gazette*, is pleased to establish the "Uttar Pradesh Education Service Selection Commission" which shall be a body corporate with headquarter at Prayagraj.

The Governor is further pleased to appoint a person as Chairperson if he/she—

- a. is or has been a member of the Indian Administrative Service and has held the post of Principal Secretary or equivalent thereto in the State Government; or
- b. is or has been a Vice-Chancellor of any University established by law; or
- c. is or has been a Professor of any University established by law for at least ten years and has at least three years of administrative experience.

Of the members—

- a. one shall be a person who is or has been a member of the Indian Administrative Service and has held the post of Secretary or any other equivalent post under the State Government;
- b. one shall be a person, who is or has been, not below the rank of Joint Director, Higher Education, whose services have been of an excellent order;
- c. one shall be a person, who is or has been, not below the rank of Additional Director, Vocational Education, whose services have been of an excellent category;
- d. one shall be a person, who is or has been, not below the rank of Joint Director, Secondary Education, whose services have been of an excellent category;
- e. one shall be a person, who is or has been, not below the rank of Joint Director, Basic Education, whose services have been of an excellent category;
- f. one shall be a person who has been a member of the Judicial service (District Judge level) with distinguished service;
- g. Six shall be educationists whose services have been outstanding and who, in the opinion of the State Government, have made significant contributions to the field of education.

By order,
M.P. AGRAWAL,
Pramukh Sachiv.